



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 6—फरवरी 12, 2016 (माघ 17, 1937)
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 6—FEBRUARY 12, 2016 (MAGHA 17, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2016

सं. 6पी—पीआरएस—582/305048—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.11.2015 के आदेश सं. 3/1/2011—सीएस. I(डी) के अनुसरण में आयोग में तदर्थ आधार पर निदेशक के पद पर कार्यरत श्री एच.के. बैनिवाल, सी.एस.एस. (सीएसएल सं. 4616) को वेतन बैंड रु. 37,400—67,000/— में ग्रेड वेतन रु. 8,700/— पर दिनांक 10.11.2015 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर निदेशक के रूप में एतद्वारा पदोन्नति दी जाती है।

पी. के. महान्ती
अवर सचिव (प्रशासन)
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

सं. ई-16014/आईबी/68(01)/2014/कार्मिक-2/1574—खुफिया विभाग, गृह मंत्रालय में डिप्टी केंद्रीय खुफिया अधिकारी(कार्य) में प्रतिनियुक्ति आधार पर 03 (तीन) वर्ष के लिए नियुक्ति के फलस्वरूप, केओसुब के निम्नलिखित सहायक कमांडेण्ट द्वारा उनके नाम के सामने दी गई तारीख व इकाई से पदभार छोड़ा व खुफिया विभाग में पदभार ग्रहण कर लिया गया है :-

अधिकारी का नाम/पद	केओसुब इकाई का नाम व पदभार छोड़ने की तिथि	खुफिया विभाग में पदभार ग्रहण
श्री राम सुख, सा.क./कार्य	31/07/15 (अपराहन) केओसुब इकाई, एसएसजी ग्रे. नोएडा	17/08/15(पूर्वा.) डिप्टी केंद्रीय खुफिया अधिकारी(कार्य), एसआईबी अहमदाबाद

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-16014/बीसीएस/स.क./63/2015/कार्मिक-2/1699—नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) में प्रतिनियुक्ति आधार पर 03 (तीन) वर्ष के लिए नियुक्ति के फलस्वरूप, केओसुब के निम्नलिखित सहायक कमांडेण्ट द्वारा उनके नाम के सामने दी गई तारीख व इकाई से पदभार छोड़ा व बीसीएस में पदभार ग्रहण कर लिया गया है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम/पद (श्री)	केओसुब इकाई का नाम व पदभार छोड़ने की तिथि	बीसीएस में पदभार ग्रहण
01	अमरेन्दु मन्ना, सा.क./कार्य	31/07/15 (अपराहन) केओसुब इकाई, एनएससीबीआई एयरपोर्ट कोलकता	03/08/15 सहायक आयुक्त सुरक्षा(सीए)
02	नफीज अहमद सा.क./कार्य	31/07/15 (अपराहन) केओसुब इकाई, एसजी लखनऊ	03/08/15 सहायक आयुक्त सुरक्षा(सीए)
03	जॉय पॉल सा.क./कार्य	01/08/15 (पूर्वाहन) केओसुब इकाई, जेडसी/एनएफसी पजयाकायल	10/08/15 सहायक आयुक्त सुरक्षा(सीए)

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

(रक्षा लेखा विभाग)

कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक

दिल्ली छावनी-110010, दिनांक 1 जनवरी 2016

सं० प्रशा-1/1172/एस.ए.जी./2015-16—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को उक्त सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान 37,400-67,000/- रुपये + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपये) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई

तारीख से तथा आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री टी. राम बाबू	27.08.2015 (पूर्वाहन)
2.	श्री राजेश रंजन	26.10.2015 (पूर्वाहन)
3.	श्री रोशन लाल	28.08.2015 (पूर्वाहन)
4.	श्री वेदवीर आर्या	01.09.2015 (पूर्वाहन)
5.	श्री कंवर समीर लाठर	02.11.2015 (पूर्वाहन)
6.	श्री पुनीत अग्रवाल	01.09.2015 (पूर्वाहन)

एस. सी. बंसल

रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा)

सं. प्रशा-1/1172/एस.ए.जी./2015-16—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को ठीक नीचे का नियम(एनबीआर) के अंतर्गत भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन बैंड-4 रुपए 37400-67000+ ग्रेड वेतन 10000 रुपए (18400-500-22400 रुपए का पूर्व संशोधित वेतनमान) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान करते हैं :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री जे. सिरीश चौधरी	26.08.2015 (पूर्वाहन)
2.	श्री हिमांशु शंकर	26.08.2015 (पूर्वाहन)

एस. सी. बंसल

रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
फरीदाबाद—121001, दिनांक 15 जनवरी 2016

सं. ए-19025/20/2015—प्रशा.-I—संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर श्रीमती सोनाली लक्ष्मण बागडे को वेतन बैंड-2 (रु 9300—34800) + ग्रेड पे रु 4600/- में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में दिनांक 31.12.2015 (पूर्वाहन) से अस्थाई आधार पर, विपणन अधिकारी (ग्रुप-1) (सर्वे, ट्रेनिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एल. अनंत
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 01 सितम्बर 2015

आदेश

सं. 7(12)/2015/विज./9837—जबकि श्री ब्रजेश कुमार शर्मा, ड्राइवर (ओजी), एनजी/106/1307, परिवहन अनुभाग, भापअ केन्द्र दिनांक 09.08.2014 से अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रह रहे हैं और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना मुख्यालय भी छोड़ दिया है।

2. और जबकि उक्त श्री शर्मा, को परिवहन अनुभाग के सहायक कार्मिक अधिकारी द्वारा दिनांक 08.10.2014 का ज्ञापन जारी किया गया और उन्हें तत्काल ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के निदेश दिए गए। उनके स्थानीय पते पर भेजा गया लिफाफा डाक प्राधिकारियों से 'अदावाकृत' अभ्युक्ति सहित वापस प्राप्त किया गया। उनके स्थायी पते पर भेजे गए लिफाफे की न तो पावती दी गई और न ही वापस प्राप्त किया गया।

3. और जबकि परिवहन अनुभाग के सहायक कार्मिक अधिकारी द्वारा दिनांक 25.11.2014 को ई मेल भेजा गया जिसमें उन्हें यह कहा गया कि वे तत्काल कार्यग्रहण करें और दिनांक 08.10.2014 के ज्ञापन की पावती भी दें। उक्त श्री शर्मा ने दिनांक 01.12.2014 के ई-मेल के तहत यह जवाब दिया कि वैयक्तिक समस्याओं के कारण वे कार्यग्रहण करने की स्थिति में नहीं हैं और उन्होंने कुछ और अधिक समय दिए जाने का अनुरोध किया है। यद्यपि उक्त श्री शर्मा ने आवश्यक छुट्टी की अवधि हेतु कोई छुट्टी आवेदन अथवा छुट्टी हेतु अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया और लगातार अनुपस्थित रहे।

4. और जबकि उक्त श्री शर्मा, को परिवहन एवं खानपान सेवाओं के उप स्थापना अधिकारी द्वारा दिनांक 12.12.2014 का ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें दिनांक 20.12.2013 की उनकी नियुक्ति प्रस्ताव के खंड 'क' की शर्तों के अनुसार उनकी सेवा समाप्ति के बारे में उन्हें सचेत किया गया था। द्रुत डाक (स्पीड पोस्ट) द्वारा भेजा गया उक्त ज्ञापन उनके स्थाई पते पर दिनांक 16.12.2014 को सुपुर्द किया गया।

5. और जबकि उक्त श्री शर्मा को स्थापना-VI के उप स्थापना अधिकारी द्वारा दिनांक 06.01.2015 का ज्ञापन उनके स्थानीय और स्थाई दोनों पतों पर जारी किया गया जिसमें उन्हें ड्यूटी पर तत्काल रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया और सूचित किया गया कि ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त ज्ञापन उनके गृहनगर के पते पर उन्हें सौंप दिया गया।

6. और जबकि दिनांक 04.02.2015 के ज्ञापन सं. एस-34/स्था.VI/ओपीए/2015/17648 के तहत दिनांक 27.01.2015 से उक्त श्री शर्मा को परीक्षा अवधि बढ़ा दी गई। उनके स्थाई पते पर प्रेषित ज्ञापन की पावती दी गई।

7. और जबकि सतर्कता अनुभाग के उप स्थापना अधिकारी द्वारा उक्त श्री शर्मा को दिनांक 25.06.2015 का कारण बताओ ज्ञापन जारी किया गया जिसमें नियुक्ति प्रस्ताव के खंड 'क' में उनकी सेवा समाप्ति के बारे में उन्हें चेतावनी दी गई थी। उनके द्वारा दिनांक 02.07.2015 को उनके स्थाई पते पर ज्ञापन की पावती दी गई थी।

8. और जबकि उक्त श्री शर्मा ने उपरोक्त के अनुसार इस अनुसंधान केन्द्र द्वारा प्रेषित पत्रों की पावती दी है परन्तु उनका जवाब नहीं दिया है और लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं।

9. और जबकि सक्षम प्राधिकारी ने उक्त श्री शर्मा की परीक्षा अवधि दिनांक 27.07.2015 से 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दी है। यह उनके स्थानीय और स्थाई दोनों पतों पर भेजा गया है।

10. और जबकि यह प्रतीत होता है कि उक्त श्री शर्मा को कार्यग्रहण की सलाह देते हुए अनेक पत्र भेजने के बावजूद उन्हें सेवा बरकरार रखने में बिल्कुल अभिरुचि नहीं है।

11. अब, इसलिए, दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 के नियुक्ति प्रस्ताव सं. पीडी/2(1)/2010-आर-III (खंड IV)/2013/14796 के खंड 'क' की शर्तों के अनुसार श्री ब्रजेश कुमार शर्मा, ड्राइवर (ओजी) परिवहन अनुभाग/कार्मिक प्रभाग (कर्मचारी सं. 28007, सं.सं.सं. एनजी/106/1307) की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं।

वी गोविंदन कुट्टी
मुख्य प्रशासन अधिकारी (पी)

1. श्री ब्रजेश कुमार शर्मा,
306, माधुवन, एम. जोतिबा फुले
को. ऑप सोसाइटी, महाराष्ट्रा नगर
मानखुर्द (पूर्व) मुंबई-400703

2. श्री ब्रजेश कुमार शर्मा,
67/3, खेरवाडी गली,
बायपास रोड, खिरागड
जिला-आग्रा, उत्तर प्रदेश-283121

मुंबई—85, दिनांक 20 जनवरी 2016

सं. पीडी/4(4)/2014—भर्ती—III/2016/792—अध्यक्ष, पी. एवं सी.डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती वर्षा शरद जाधव, निजि सचिव (गैर—सचिवलयीन), को दिनांक 07.01.2016 (पूर्वाहन) से, आगामी आदेशों तक रु. 9300—34800 के वेतन बैंड—2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4800/— में इस अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ निजि सचिव के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार)

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जम्मू—180012, दिनांक 5 जनवरी 2016

सं. आरओसी/जम्मू/560(5)/एफ.टी.ई.—2015—16—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा इस सूचना के प्रकाशित होने के तारीख से कम्पनियाँ विघटित समझी जाएंगी :—

क्र. सं.	कम्पनी की सं.	कम्पनी का नाम
1.	यू.45400जेके2013पीटीसी003793	मैसर्स जी के पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
2.	यू.74140जेके1996पीटीसी001531	मैसर्स एस.एस. इन्डस्ट्रीयल एण्ड टेक्नीकल कन्सलटेन्सी ओरगनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड

ओ.पी. शर्मा
कम्पनी पंजीकार
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता, दिनांक 21 जनवरी 2016

सं. क.र./प०.बं०./एफ.टी.ई./560/2015—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 36 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :—

क्र. सं.	सी.आई.एन.	कम्पनी का नाम
1	U63012WB2012PTC184509	कनॉट्स शिपिंग्स एंड लौजिस्टिक्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2	U50401WB2012PTC182560	मैक्स ऑटोमोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3	U01409WB2006PTC110240	नगवा एगो प्राइवेट लिमिटेड
4	U45400WB2011PTC168843	प्रधानराज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U51909WB2010PTC151797	कैलीफोर्निया मर्कटाइल प्राइवेट लिमिटेड
6	U01409WB2006PTC110227	तिकारा एगो प्राइवेट लिमिटेड
7	U74120WB2010PTC148133	शाही कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
8	U52190WB2012PTC177175	हनशाल विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड
9	U52190WB2012PTC177170	हनशाल टाइ अप प्राइवेट लिमिटेड
10	U52190WB2011PTC159425	क्रैग वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
11	U52190WB2012PTC177191	स्नोबॉल शॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U52190WB2012PTC177193	स्नोबॉल स्टॉकिस्ट प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सी.आई.एन.	कम्पनी का नाम
13	U52190WB2012PTC177176	टचविन बर्टर प्राइवेट लिमिटेड
14	U52190WB2012PTC177197	व्हाइटपेटल्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U52190WB2012PTC177185	पाथेरदाबी ट्रेडलिक प्राइवेट लिमिटेड
16	U51909WB2011PTC164540	इन्द्रप्रस्थ डिलकॉम प्राइवेट लिमिटेड
17	U70109WB2011PTC163613	शाकमबारी इन्फ्रा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
18	U52190WB2012PTC177202	नील सिमाना डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U51909WB1993PTC058894	संजना एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
20	U92412WB2012PTC184052	श्री सिक्स्टी डिग्री कारपोरेट रिलेसन्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U24117WB1992PTC055475	बिहार केमिकल ट्रेडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
22	U45400WB2010PTC141508	एनएच प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U55101WB2000PTC090998	यमुना टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U55101WB1995PTC071709	फारईस्ट होटल्स एंड कारवरी प्राइवेट लिमिटेड
25	U72900WB1999PTC089986	सिफकोण कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
26	U51909WB2013PTC194648	धनाशा वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
27	U51909WB2013PTC194655	जगवंदना व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
28	U45400WB2013PTC194578	रामदरबार प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
29	U51909WB2013PTC194662	शिवाशा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
30	U74200WB2002PTC094129	विख्यात इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
31	U45400WB2013PTC194010	लिन्करोज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
32	U45400WB2013PTC194012	लिन्करोज रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U45400WB2013PTC198279	सिंघल प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U92412WB2013PTC199122	जयगाँव रिक्रीएसन्स प्राइवेट लिमिटेड
35	U51909WB2012PTC179496	एकादृष्टि व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
36	U74900WB2014OPC203571	स्टीलोजफायर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड

दीप नारायण चौधुरी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 15th January 2016

No. 6P-PRS-582/305048—In terms of DoPT's Order No. 3/1/2011-CS.I(D), dated 10.11.2015, Shri H. K. Beniwal, CSS (CSL No. 4616), working as Director in the Commission on ad-hoc basis, is hereby promoted as Director on regular basis, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/-, with Grade Pay of Rs. 8,700/-, with effect from the forenoon of 10th November 2015.

P. K. MOHANTY
Under Secretary (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi, the 23rd December 2015

No. E-16015/IB/68(1)/2014/Pers.II/1574—Consequent upon appointment to the post of Deputy Central Intelligence Officer/Exe (DCIO) in Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, on deputation basis for a period of three years, the following Assistant Commandant/Exe has relinquished the charge of the post of Assistant Commandant from CISF and assumed the charge of the post at Intelligence Bureau with effect from the date as mentioned below :—

Name of the Officer/Rank	Date of charge relinquishment/Unit	Date of assumption of charge in IB & Rank
Shri Ram Sukh Asstt. Comdt/Exe	31.07.2015 (AN) CISF unit SSG Gr. Noida	17.08.2015 (FN) Deputy Central Intelligence Officer/Exe SIB Ahmedabad

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16014/BCAS/AC(s)/(63)/2015/Pers-II/1699—Consequent upon appointment to the post of Assistant Commissioner of Security (CA) in bureau of Civil Aviation Security (BCAS), Ministry of Civil Aviation on deputation basis for a period of three years, the following Assistant Commandants/Exe have relinquished the charge of the post of Assistant Commandant from CISF and assumed the charge of the posts at BCAS with effect from the date as mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer/Rank (Shri)	Date of charge relinquishment/Unit	Date of assumption of charge in BCAS & Rank
1.	Amarendu Manna Asstt. Comdt/Exe	31.07.2015 (AN) CISF unit NSCBI Airport Kolkata	03.08.2015 Asstt. Commissioner of Security (CA)
2.	Nafees Ahmad Asstt. Comdt/Exe	31.07.2015 (AN) CISF Unit ASG Lucknow	03.08.2015 Asstt. Commissioner of Security (CA)
3.	Joy Paul Asstt. Comdt/Exe	01.08.2015 (FN) CISF Unit ZC/NFC Pazhayakayal	10.08.2015 Asstt. Commissioner of Security (CA)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
(DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT)

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

Delhi Cantt-110010, the 1st January 2016

No. AN-I/1172/SAG/2015-16—The President is pleased to grant promotion to the undermentioned officers to the Senior Administrative Grade in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 18,400-500-22,400/-) in the Indian Defence Accounts Service with effect from the dates indicated against their names and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date from which appointed to Senior Administrative Grade
1.	Shri T. Ram Babu	27.08.2015 (FN)
2.	Shri Rajesh Ranjan	26.10.2015 (FN)
3.	Shri Roshan Lal	28.08.2015 (FN)
4.	Shri Vedveer Arya	01.09.2015 (FN)
5.	Shri Kanwar Sameer Lather	02.11.2015 (FN)
6.	Shri Puneet Agarwal	01.09.2015 (FN)

S. C. BANSAL
ACGDA (AN)

No. AN-I/1172/SAG/2015-16—The President is pleased to grant proforma promotion under Next Below Rule (NBR) to undermentioned officer to the Senior Administrative Grade in the Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 18,400-500-22,400/-) in the Indian Defence Accounts Service with effect from the date indicated against their names and until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer	Date from which appointed to Senior Administrative Grade
1.	Dr. J. Sirish Choudhary	26.08.2015 (FN)
2.	Shri Himanshu Shankar	26.08.2015 (FN)

S. C. BANSAL
ACGDA (AN)

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad-121001, the 15th January 2016

No. A-19025/20/2015-A.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Smt. Sonali Laxman Bagade has been appointed as Marketing Officer (Group-I) (Survey, Training & Quality Control) in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + Grade Pay of Rs. 4,600/- on temporary basis in the Directorate of Marketing & Inspection, Regional Office, Hyderabad with effect from 31st December, 2015 (Forenoon).

L. ANANTH
Under Secretary

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 1st September 2015

ORDER

No. 7(12)/2015/Vig./9837—WHEREAS Shri Brajesh Kumar Sharma, Driver (OG), NG/106/1307, Transport Section, PD, BARC is absenting unauthorisedly from duties w.e.f. 09/08/2014 and has also left his Head quarters without the prior approval of the Competent Authority.

2. AND WHEREAS the said Shri Sharma was issued a Memorandum dtd 8/10/2014 by Assistant Personnel Officer, Transport section directing him to report for duty immediately. The Envelope sent to his local address was received back from Postal Authorities with remarks 'Unclaimed'. The envelope sent to his permanent address was neither acknowledged nor received back.

3. AND WHEREAS an e-mail was sent to the said Shri Sharma by Assistant Personnel Officer, Transport section on 25/11/2014 asking him to join duty immediately and also to acknowledge the memorandum dtd 8/10/2014. The said Shri Sharma responded vide e-mail dtd 1/12/2014 stating that due to personal problems he is not in a position to resume duty and requested for some more time. However the said Shri Sharma did not submit any leave application or request for leave indicating the period of leave required by him and continued to remain absent.

4. AND WHEREAS the said Shri Sharma was issued a Memorandum dtd 12/12/2014 by Dy. Establishment Officer, Transport & Catering Services warning him of termination of services in terms of clause 'a' of the offer of appointment dtd 20/12/2013. The said Memorandum sent through speed post was delivered to him at his permanent address on 16/12/2014.
5. AND WHEREAS the said Shri Sharma was issued a Memorandum dtd 6/1/2015 from Dy. Establishment Officer, Estt.VI at both his local and permanent address directing him to report for duty immediately failing which action as deemed fit will be taken against him. The said memorandum has been delivered to him at his Home Town address.
6. AND WHEREAS the Probationary period of said Shri Sharma was extended for a period of six months from 27/1/2015 vide Memorandum No. S-34/Estt.VI/OPA/2015/17648 dtd 4/2/2015. The Memorandum sent to his permanent address was acknowledged.
7. AND WHEREAS a Showcause Memorandum dtd 25/6/2015 was issued to the said Shri Sharma from Dy. Establishment Officer, Vigilance Section warning him of termination of his service under clause 'a' of the offer of appointment. The said Memorandum was acknowledged by him on 2/7/2015 at his permanent address.
8. AND WHEREAS the said Shri Sharma has acknowledged the communications sent from this Research Centre as above but failed to respond to them and continues to remain absent.
9. AND WHEREAS the Competent Authority has again extended the probationary period of the said Shri Sharma for a further period 6 months from 27/7/2015. This has been sent to both his local and permanent addresses.
10. AND WHEREAS it is apparent that the said Shri Sharma is least interested in continuing in service inspite of sending various communications to him advising him to join duty.
11. NOW, THEREFORE, the services of Shri Brajesh Kumar Sharma, Driver (OG), Transport Section/Personnel Division (Employee No. 28007, C.C. No. NG/106/1307) stands terminated with immediate effect in terms of clause 'a' of the offer of appointment No. PD/2(1)/2010-R-III (Vol.IV)/2013/14796 dtd December 20, 2013.

V. GOVINDANKUTTY
Chief Administrative Officer (P)

1) Shri Brajesh Kumar Sharma
306, Madhuvan, M.Jyotiba Phule
Co.op Society, Maharashtra Nagar,
Mankhurd (East),
Mumbai-400 703.

2) Shri Brajesh Kumar Sharma
67/3, Kherwadi Gali,
Bypass Road, Kheragarh,
Dist: Agra
Uttar Pradesh- 283 121.

Mumbai-85, the 20th January 2016

No. PD/4(4)/2014-R-III/2016/792—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Varsha Sharad Jadhav, Private Secretary (Non-Secretariat), to the post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 07.01.2016 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Asstt.Personnel Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/o THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956, and of the following Companies

Jammu-180012, the 5th January 2016

No. Notice u/s. 560(5)/FTE-2015-16 –Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved:-

Sl. No.	CIN	Company Name
1.	U45400JK2013PTC003793	M/S G K POWER & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
2.	U74140JK1996PTC001531	M/S S.S.INDUSTRIAL AND TECHNICAL CONSULTANCY ORGANISATION PRIVATE LIMITED

O.P.SHARMA
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 21st January 2016

No. ROC/WB/FTE/560/2015—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 36 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved :—

SL No.	CIN	Name of the Company
1	U63012WB2012PTC184509	KNOTS SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES PRIVATE LIMITED
2	U50401WB2012PTC182560	MAXX AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED
3	U01409WB2006PTC110240	NAGWA AGRO PVT LTD
4	U45400WB2011PTC168843	PRADHANRAJ BUILDERS PRIVATE LIMITED
5	U51909WB2010PTC151797	CALIFORNIA MERCANTILE PRIVATE LIMITED
6	U01409WB2006PTC110227	TIKARA AGRO PVT LTD
7	U74120WB2010PTC148133	SHAHI CONSULTANT PRIVATE LIMITED
8	U52190WB2012PTC177175	HANSHAL VINCOM PRIVATE LIMITED
9	U52190WB2012PTC177170	HANSHAL TIE UP PRIVATE LIMITED
10	U52190WB2011PTC159425	CRAIG VANIJYA PRIVATE LIMITED
11	U52190WB2012PTC177191	SNOWBALL SHOPPERS PRIVATE LIMITED
12	U52190WB2012PTC177193	SNOWBALL STOCKIST PRIVATE LIMITED
13	U52190WB2012PTC177176	TOUCHWIN BARTER PRIVATE LIMITED
14	U52190WB2012PTC177197	WHITEPETALS SALES PRIVATE LIMITED
15	U52190WB2012PTC177185	PATHERDABI TRADELINK PRIVATE LIMITED
16	U51909WB2011PTC164540	INDRAPRASTH DEALCOM PRIVATE LIMITED
17	U70109WB2011PTC163613	SHAKAMBARI INFRA NIRMAN PRIVATE LIMITED
18	U52190WB2012PTC177202	NEEL SIMANA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
19	U51909WB1993PTC058894	SANJANA AGENCIES PVT. LTD.
20	U92412WB2012PTC184052	THREE SIXTY DEGREE CORPORATE RELATIONS PRIVATE LIMITED
21	U24117WB1992PTC055475	BEHAR CHEMICAL TRADERS (INDIA) PVT. LTD.
22	U45400WB2010PTC141508	NH PROJECTS PRIVATE LIMITED
23	U55101WB2000PTC090998	YAMUNA TOWERS PRIVATE LIMITED
24	U55101WB1995PTC071709	FAREAST HOTELS AND CARVERY PRIVATE LIMITED

SL No.	CIN	Name of the Company
25	U72900WB1999PTC089986	SYFCON CONSULTANTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
26	U51909WB2013PTC194648	DHANAASHA VANIJYA PRIVATE LIMITED
27	U51909WB2013PTC194655	JAGVANDANA VYAPAAR PRIVATE LIMITED
28	U45400WB2013PTC194578	RAMDARBAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED
29	U51909WB2013PTC194662	SHIVAASHA MARKETING PRIVATE LIMITED
30	U74200WB2002PTC094129	VIKHYAT ENGINEERING PRIVATE LIMITED
31	U45400WB2013PTC194010	LINKROSE PROPERTIES PRIVATE LIMITED
32	U45400WB2013PTC194012	LINKROSE REALTORS PRIVATE LIMITED
33	U45400WB2013PTC198279	SINGHAL PROMOTERS PRIVATE LIMITED
34	U92412WB2013PTC199122	JAIGAON RECREATION PRIVATE LIMITED
35	U51909WB2012PTC179496	EKADRISHTA VYAPAAR PRIVATE LIMITED
36	U74900WB2014OPC203571	STEELAGE FIRE OPC PRIVATE LIMITED

D. N. CHOWDHURY
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in